

निगम के लिए संभव नहीं था। तथापि, बदरपुर के कर्मचारियों को, गृह निर्माण के लिए ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह प्रस्ताव किया गया है कि चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजन के लिए निधि का प्रावधान किया जाए।

(ग) बदरपुर ताप विद्युत् केन्द्र और परियोजना को छोड़ कर, राष्ट्रीय ताप विद्युत् निगम की सभी परियोजनाओं के लिए वर्ष 1979-80 के बजट में 15.19 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया था। चालू वर्ष (1980-82) के लिए 24 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है, बदरपुर से सम्बन्धित प्रस्ताव इसमें शामिल नहीं है।

आकाशवाणी दिल्ली में हिन्दी तथा अंग्रेजी कार्यक्रमों के लिए निर्धारित समय

3413. श्री भीखामाई : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के दिल्ली 'क' और दिल्ली 'ख' स्टेशनों से हिन्दी तथा अंग्रेजी कार्यक्रमों के लिए अलग-अलग कितना समय निर्धारित है ;

(ख) अंग्रेजी कार्यक्रमों को अधिक समय देने के क्या कारण हैं जबकि हिन्दी कार्यक्रम सुनने वालों की संख्या तुलनात्मक रूप से अधिक है; और

(ग) क्या हिन्दी कार्यक्रमों की लोकप्रियता को देखते हुए हिन्दी कार्यक्रमों के समय को बढ़ाने का विचार है, यदि हाँ, तो कितना समय बढ़ाया जायेगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम बुलारी सिन्हा) : (क) दिल्ली केन्द्र के 'क' और 'ख' चैनलों पर प्रसारित दैनिक कार्यक्रमों का भाषा-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है ( इसमें वाद्य-संगीत की अवधि शामिल नहीं की गई है ) :—

	दिल्ली "क"	दिल्ली "ख"	योग
	मिनट	मिनट	मिनट
हिन्दी . . . . .	694	240	934
अंग्रेजी . . . . .	5	317	322
पंजाबी . . . . .	10	80	90
उर्दू . . . . .	35	30	65
संस्कृत . . . . .	10	--	10
अन्य . . . . .	13	30	43

(ख) और (ग). ऊपर (क) से यह देखा जा सकेगा कि अंग्रेजी के कार्यक्रमों को अधिक समय नहीं दिया जा रहा है। हिन्दी के कार्यक्रमों की वर्तमान मात्रा को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

हिन्दी फिल्मों का निर्यात

3414. श्री भीखामाई : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान किन-किन देशों को हिन्दी फिल्मों का निर्यात किया गया और प्रत्येक देश को कितनी-कितनी फिल्मों का निर्यात किया गया ;

(ख) उन फिल्मों के नाम क्या हैं और उनके निर्माताओं का व्यौरा क्या है; और

(ग) इन फिल्मों के निर्यात से विदेशी मुद्रा की कितनी आय हुई और इनका प्रदर्शन किन-किन देशों में हुआ ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम बुलारी सिन्हा) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

अंग्रेजी फिल्मों का आयात

3415. श्री भीखामाई : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत 3 वर्षों के दौरान कितनी अंग्रेजी फिल्मों का आयात किया गया ;

(ख) देश में अंग्रेजी फिल्मों का आयात करने वाले वितरकों के नाम क्या हैं; और

(ग) कुल आयातित फिल्मों में से कितनी फिल्मों को सेन्सर बोर्ड द्वारा प्रदर्शन के लिए पास नहीं किया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम बुलारी सिन्हा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान अंग्रेजी की 352 फीचर फिल्मों का निम्नानुसार आयात किया गया था :—

1977-78 . . . . .	103
1978-79 . . . . .	140
1979-80 . . . . .	109

इनमें मैसर्स सोवैक्सपोर्ट फिल्म द्वारा आयात की गई फीचर फिल्में, जो रूसी भाषा में हैं, किन्तु अंग्रेजी, हिन्दी या प्रादेशिक भाषाओं में इनको डब किया जाता है इनको उप-शीर्षक दिए जाते हैं, या लघु फिल्मों जिनके आयात को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत अनुमति दी जाती है, शामिल नहीं हैं।

(ख) अंग्रेजी की फिल्मों का आयात करने वाले वितरकों के नाम इस प्रकार हैं :—

1. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ।
2. कोलम्बिया फिल्मस आफ इण्डिया लि० ।
3. पैरामाउण्ट फिल्मस आफ इण्डिया लि० ।
4. टूवण्टीयथ सैन्चुरी फोकस कारपोरेशन (इंडिया) प्रा० लि० ।
5. यूनाइटेड आर्टिस्ट्स कारपोरेशन ।
6. वॉनर ब्रदर्स (एफ० ई०) इन्क ।
7. एलाइड आर्टिस्ट्स आफ इण्डिया इन्क ।
8. मेट्रो गोल्डविन मैजर इण्डिया लि० ।
9. यूनिवर्सल पिक्चर्स इण्डिया प्रा० लि० ।

(ग) केन्द्रीय फिल्म सेमर बोर्ड द्वारा 30 फिल्मों को निम्नानुसार अन्तिम रूप से स्वीकृति नहीं दी गई —

1977-78	.	.	12
1978-79	.	.	8
1979-80	.	.	10

**Capacity of Darbhanga A.I.R. Station**

3416. SHRI BOGENDRA JHA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Darbhanga (Mithila) Broadcasting Station of the A.I.R. has got only 10 Kw. capacity;

(b) whether at the time of installation Government had assured that the capacity of the transmitter would be increased later; if so, steps being taken to do the same;

(c) what is the total time allotted to various languages broadcast from Darbhanga and whether Maithili is being made the Chief media of news and other broadcasts; and

(d) if so, the details thereabout?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI RAM DULARI SINHA): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) & (d). The total time devoted to programmes in various languages (excluding music and news relayed) broadcast from AIR Darbhanga per month is given below:

Name of Language	Duration (Spoken word etc)	
	Hours	Minutes
Hindi . . . . .	33	05
Maithili . . . . .	28	20
Urdu . . . . .	20	09
English . . . . .	17	27
Sanskrit . . . . .	00	45

There is no proposal to originate news bulletins from Darbhanga. So far as broadcasts to rural audiences are concerned Maithili has been given its due place and importance.

**Resuscitation of Fertiliser Industry from loss of production**

3417. SHRI GHULAM RASOOL KOCHACK:

SHRI M. V. CHANDRA-SHEKHARA MURTHY:

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state:

(a) whether the Union Government have prepared a crash plan to resuscitate the fertiliser industry from the present huge production losses that it has been incurring for want of power and feed stocks;

(b) if so, what are the main details of the proposed scheme;